



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट:- दिनांक 01-06-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 1000 लीटर लहन किया गया नष्ट ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में दिनांक 31.05.2021 को छापेमारी की दौरान मलखानपुर रोड के पास न्यु गिहार कालौनी में प्रमोद पुत्र मोतीलाल के प्लाट के पास में चल रही अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी का भांडाफोड करते हुए एक अभियुक्त चंदन पुत्र बाबा निवासी न्यु गिहार कालौनी थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद को अवैध भट्टी कच्ची शराब व भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है जिस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 349/21 धारा 60/62 आबकारी अधि0 व 272 भादवि बनाम चन्दन उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-चंदन पुत्र बाबा नि0 न्यु गिहार कालौनी थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 105 लीटर अवैध कच्ची शराब ।
2. 02 कि0ग्रा0 यूरिया व 100 ग्राम नौसादर ।
3. शराब बनाने के उपकरण ।
4. एक अदद टीन जिसमें प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ ।
5. एक अदद स्टील का पारा जिसके तीन किनारो पर लोहे व एलमोनियम का तार लगा है ।
6. एक अदद सिलवर का पतीला जिसके पैदे पर एक रंगीन कपडा लिपटा हुआ ।
7. एक अदद छोटा गैस सिलेण्डर रंग लाल ।
8. एक छोटा चूल्हा जिसमें प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ ।
9. एक अदद बाल्टी प्लास्टिक की रंग सफेद ।
10. एक अदद बोतल कांच की ।
11. एक बोतल प्लास्टिक की ।
12. एक मग्गा रंग लाल प्लास्टिक का ।
13. एक प्लास्टिक का डब्बा 15 लीटर रंग सफेद बिना ढक्कन ।
14. 1000 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 अंकित मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री मोहर अली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 3- हे0का0 284 सतेन्द्र सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-का0 34 हरिश चन्द्र थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।